

UASG ने छह नए UA राजदूतों का स्वागत किया

UASG के अध्यक्ष अजय डाटा द्वारा,

यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप (UASG) वित्त वर्ष 21 (जुलाई 2020-जून 2021) के लिए UASG राजदूत कार्यक्रम में छह नए UA राजदूतों का स्वागत करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। इन व्यक्तियों के पास डोमेन नाम उद्योग, IT, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और तकनीकी अनुसंधान में व्यापक विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त है साथ ही, बेनिन, भारत, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में UA के प्रयासों का समर्थन करने में मदद करेंगे। UA राजदूत कार्यक्रम में एशिया प्रशांत (APAC), यूरोप, मध्य पूर्वी देश और अफ्रीका (EMEA), लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (LAC), और उत्तरी अमेरिका (NA) क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले नौ अलग-अलग देशों के कुल 13 राजदूत हैं। UA राजदूतों की पूरी सूची और उनके बारे में जानकारी [यहां](#) देखें।

यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस (UA) यह सुनिश्चित करता है कि सभी डोमेन नाम और ईमेल पते, भाषा/लिपि या वर्ण लंबाई (जैसे, .भारत, .photography) की परवाह किए बिना सभी इंटरनेट-सक्षम एप्लिकेशन, डिवाइस और सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएं। तकनीकी रूप से, उन्हें सभी डोमेन नामों और ईमेल पतों को समान रूप से, लगातार और सही तरीके से स्वीकार करना, सत्यापित करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना और प्रदर्शित करना होगा। जब तक UA का मुकाम हासिल नहीं हो जाता है, तब तक सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए सुसंगत और सकारात्मक अनुभव प्रदान करना संभव नहीं है जिसकी वजह से व्यवसायों और संगठनों के लिए उनकी चुनी हुई ऑनलाइन पहचान में करोड़ों वैश्विक उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ने की क्षमता को सीमित करता है।

UASG राजदूत कार्यक्रम 2018 में उद्योग नेताओं और UA विशेषज्ञों की भर्ती करने के लिए बनाया गया था जो अपने संबंधित क्षेत्रों के अंदर UA और ईमेल पते का अंतर्राष्ट्रीयकरण (EAI) करने के बारे में जागरूकता फैलाने और दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। UA राजदूत स्थानीय UA आयोजनों की मेजबानी करते हैं और सामान्य पहुंच गतिविधियों में संलग्न होते हैं, और UASG के मिशन का समर्थन करने में मदद करते हैं।

हमारे नए राजदूतों के बारे में जानें

(पूरी जानकारी [यहां](#) उपलब्ध है।)



जैजिग अजारटूक

- साइबर सुरक्षा शोधकर्ता जो तुर्की के निवासी हैं।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में उपयोगकर्ता, शोधकर्ता और डेवलपर के रूप में शामिल हैं, और UA तत्परता की अलग-अलग स्थितियों पर लागू शोध चलाने की योजना बनाई है।



मलिक अलासन

- IT सुरक्षा विश्लेषक बेनिन के निवासी।
- इनके पास डोमेन नाम उद्योग, वेब डेवलपमेंट, इंटरनेट नेटवर्क माप और इंटरनेट सुरक्षा में व्यापक अनुभव है।



मार्क एल्लिन्स

- वे दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और 1995 में CO.ZA शीर्ष-स्तरीय डोमेन (TLD) बनाने में मदद की।
- अपनी खुद की ISP चलाते हैं, DNS पर कक्षाएं पढ़ाते हैं, DNSSEC पसंद करते हैं, और DNSSEC ICANN कार्यशाला समिति के सदस्य हैं। छह साल के लिए AfrinIC बोर्ड के सदस्य और अफ्रीका के लिए ICANN DNS अध्ययन के प्रमुख सदस्य थे।



अमन मस्जिद

- इंडिया में रेडिक्स में दुरुपयोग-रोकने और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रयासों का संचालन करते हैं, और डोमेन नाम उद्योग के दुरुपयोग रोकने के क्षेत्र में 14 साल का अनुभव है।
- रेडिक्स में, वर्तमान में वेबसाइट साइनअप और संपर्क फॉर्म के UA तत्परता के आंतरिक परियोजना परीक्षण का संचालन करते हैं।



अब्दुलकरीम अयोपो ओलोऐडे

- नाइजीरिया के निवासी; इलोरिन विश्वविद्यालय, नाइजीरिया और यॉर्क विश्वविद्यालय, यूके में वायरलेस दूरसंचार, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रशासन सिखाते हैं।
- AFRINIC पॉलिसी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप (PDWG) के सह-अध्यक्ष, ICANN At-Large सलाहकार समिति (ALAC) के सदस्य, ITU- D दूरसंचार विकास सलाहकार समूह (TDAG) के उपाध्यक्ष।



सुशांत सिन्हा

- कोलकाता, इंडिया के निवासी; IT उद्योग में 25 वर्षों से शामिल हैं और वर्तमान में एक बड़े वैश्विक IT संगठन में एंटरप्राइज़ एजाइल कोच के रूप में काम करते हैं।
- इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (FIE) इंडिया के फेलो, कंप्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया के संरक्षक और इंटरनेट सोसाइटी ऑफ इंडिया, कोलकाता चैप्टर के सचिव हैं। वर्तमान में इंडिया इंटरनेट फ़ाउंडेशन (IIFON) के तहत गठित वर्नाकुलर इंटरनेट इकोसिस्टम वर्किंग ग्रुप (VIEW Group) के अध्यक्ष हैं, और UA को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं।

UA राजदूतों को UASG समन्वय कार्य समूह द्वारा वार्षिक आधार पर चुना जाता है। अगर आप राजदूत बनने के इच्छुक हैं या अधिक जानने की इच्छा रखते हैं, तो [यहां](#) क्लिक करें अथवा आप मुझे मेरी हिंदी ईमेल एड्रेस अजय@डाटा.भारत पर भी संपर्क कर सकते हैं ।